



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 जुलाई, 2022

आषाढ़ 30, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 977 / 77-3-2022-57(एम)-2020

लखनऊ, 21 जुलाई, 2022

अधिसूचना

प0आ0-307

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि जिला आजमगढ़ की तहसील बूढ़नपुर के ग्राम-अनन्तपुर रकबा-0.0330 हे०, ग्राम-महादेवपुर रकबा-0.0329 हे०, ग्राम-कटवा रसूलपुर रकबा-0.1975 हे०, ग्राम-मनियारपुर रकबा-0.0567 हे०, ग्राम-अकबेलपुर मु० गोरहरपुर रकबा-0.6695 हे०, ग्राम-हैदरपुर खास रकबा-0.1901 हे०, ग्राम-अकबेलपुर मु० हैदरपुर रकबा-1.0758 हे०, ग्राम-गदनपुर रकबा-1.0244 हे०, ग्राम-कुकुरीपुर मु० चत्तुरपुर रकबा-1.5151 हे०, ग्राम-गोईजी जमीन गोईजी रकबा-0.0878 हे०, परानपुर रकबा-0.0216 हे०, जोगीपुर रकबा-0.0816 हे०, रसूलपुर रकबा-0.3130 हे०, गनपतपुर रकबा-0.1063 हे०, रामपुर मु० गनपतपुर रकबा-0.0010 हे०, मंशापट्टी रकबा-0.0437 हे०, सोमापुर रकबा-0.1610 हे०, नन्दना रकबा-0.0107 हे०, शेखपुर मु० चत्तुरपुर रकबा-0.6505 हे०, गोरथानी रकबा-0.0980 हे०, मण्डोही रकबा-0.0800 हे०, जमीन नन्दना रकबा-0.0063 हे० तथा भोराजपुर कला रकबा-0.4400 हे०, कुल 6.8965 हेक्टेयर भूमि की, लोक प्रयोजन अर्थात् उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण अभिकरण द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया था और उसने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कर दी हैं जिसने दिनांक 14 जुलाई, 2022 को उसकी संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है।

3-संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना से संबंधित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं :-

(क) गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना एक पारंपरिक परियोजना है, जो किसी प्रभावित ग्राम में अधिकतम 120 मी0 चौड़ाई की भूमि पट्टी पर संचालित की जा रही है। इस प्रकार यह परियोजना, किसी ग्राम के अधिकांश अथवा कुल क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रही है ताकि इस परियोजना से विस्थापन नगण्य हो;

(ख) यद्यपि इस परियोजना के संबंधित ग्रामों में कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना संभाव्य है किन्तु भूमि के सर्किल दर के चार गुना के बराबर के प्रतिकर से कृषकों को फार्मों का उन्नयन करने, फार्म मशीनरी में वृद्धि करने और सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी;

(ग) भूमि अर्जन के प्रतिकर से वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, उत्तम आवास निर्माण, परिवहन के साधनों तथा कृषि प्रौद्योगिकी में विकास होना संभाव्य है। इससे भू-धृतियों में होने वाली ह्रास की क्षति की पूर्ति होगी;

(घ) लम्बी दूरी की इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का राज्य की राजधानी लखनऊ से जुड़ना संभाव्य होगा जिससे समय और लागत में कमी आयेगी और सुदूर क्षेत्रों में वाणिज्यिक क्रियाकलापों का विकास होगा। इससे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, फलों एवं सब्जियों तथा अन्य विनश्वर वस्तुओं को बड़े बाजारों तक ले जाने में सुविधा होगी और यह कृषि एवं सहबद्ध प्रयोजनों में सहायक होगा;

(ङ) तीव्र एवं अपेक्षाकृत उत्तम परिवहन साधनों की वृद्धि से पर्यटन, चिकित्सा परिचर्या और अन्तर्राज्यीय परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा;

(च) अतएव बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुति निम्नानुसार है :-

(एक) जिला आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करना लोक हित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है;

(दो) इस परियोजना की संभाव्य प्रसुविधाएं, सामाजिक व्यय एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की अपेक्षाकृत अधिक हैं और अर्जित की जाने वाली कुल भूमि, इस परियोजना के लिये अपेक्षित कुल भूमि से अत्यन्त कम है।

4-समिति की उपरोक्त संस्तुतियों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना द्वारा प्रभावित क्षेत्र के लिए सर्किल दर का पुनरीक्षण, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग/कलेक्टर, आजमगढ़ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किये जाने की प्रक्रिया, उक्त अधिनियम की धारा 26 में उल्लिखित है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यह भी उल्लिखित है कि निकटतम समीपस्थ क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के औसत विक्रय मूल्य का अवधारण, कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

5-इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य न हो।

6-अतएव, राज्यपाल सामान्य सूचना हेतु यह अधिसूचित करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

क्रम-संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 मे)
1	2	3	4	5	6	7
1	आजमगढ़	बूढनपुर	अतरौलिया	अनन्तपुर	23	0.0330
					योग	0.0330
2				महादेवपुर	42	0.0329
					योग	0.0329
3				कटवा रसूलपुर	42	0.1590
					44	0.0242

क्रम- संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे० मे)
1	2	3	4	5	6	7
	आजमगढ़	बूढनपुर	अतरौलिया	कटवा रसूलपुर	45	0.0143
					योग	0.1975
4				मनियारपुर	34	0.0567
					योग	0.0567
5				अकबेलपुर मु० गोरहरपुर	46	0.0170
					47	0.0024
					48	0.0039
					50	0.0620
					113 मि०	0.0042
					127	0.2610
					128	0.0034
					129	0.0100
					130	0.0135
					133	0.0750
					134	0.0116
					140	0.0071
					141	0.0036
					142	0.0409
					143	0.0060
					147	0.0408
					148	0.1071
					योग	0.6695
6				हैदरपुर खास	440	0.0543
					441	0.1358
					योग	0.1901
7				अकबेलपुर मु० हैदरपुर	6 मि०	0.0173
					7	0.0023
					15	0.0048
					18	0.0026
					44	0.0050
					55	0.0004
					59	0.0007
					65	0.0167
					67	0.0006
					70	0.0043
					71	0.0760
					73	0.2021
					82	0.0675
					86	0.0324
					87	0.0090
					89	0.0041
					96	0.0770
					92	0.0036
					93	0.0106

क्रम- संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे० मे०)
1	2	3	4	5	6	7
	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	अकबेलपुर मु० हैदरपुर	94	0.1178
					95	0.3285
					97	0.0732
					98	0.0158
					101	0.0035
					योग	1.0758
8				गदनपुर	4 मि०	0.122
					15	0.0766
					16	0.1118
					17	0.0150
					96	0.0665
					99	0.1281
					103	0.0222
					104	0.0556
					112	0.0370
					113 मि०	0.0045
					117	0.0231
					118	0.0102
					119	0.0004
					120	0.0246
					121	0.0805
					126	0.0149
					127	0.0534
					140	0.0035
					142	0.0023
					149/1	0.1140
					149/2	0.0570
					150	0.0012
					योग	1.0244
9				कुकुरीपुर मु० चत्तुरपुर	4	0.0791
					6	0.1254
					9	0.1817
					12	0.1779
					27	0.2400
					28	0.0664
					45	0.0078
					47	0.2991
					48	0.1725
					51	0.0252
					53	0.0724
					73	0.0500
					78	0.0130
					79	0.0046
					योग	1.5151

क्रम- संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे० मे०)
1	2	3	4	5	6	7
10	आजमगढ़	बूढनपुर	अतरौलिया	गोईजी जमीन गोईजी	116	0.0617
					118	0.0261
					योग	0.0878
11				परानपुर	234	0.0216
					योग	0.0216
12				जोगीपुर	352	0.0009
					353	0.0067
					354	0.0158
					367	0.0050
					368	0.0532
					योग	0.0816
13				रसूलपुर	9	0.0280
					11	0.1139
					13	0.0233
					14	0.0628
					16	0.0850
					योग	0.3130
14				गनपतपुर	174	0.0002
					214	0.0237
					215	0.0045
					255	0.0401
					258	0.0345
					277 मि०	0.0033
					योग	0.1063
15				रामपुर मु० गनपतपुर	23	0.0009
					25	0.0001
					योग	0.0010
16				मंशापट्टी	43	0.0101
					54	0.0036
					121	0.0300
					योग	0.0437
17				सोमापुर	14	0.0444
					15	0.0600
					16	0.0566
					योग	0.1610
18				नन्दना	10	0.0004
					11	0.0003
					12	0.0001
					26	0.0001
					34	0.0060
					37 मि०	0.0038
					योग	0.0107

क्रम- संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे० मे)
1	2	3	4	5	6	7
19	आजमगढ़	बूढनपुर	अतरौलिया	शेखपुर मु० चत्तुरपुर	224	0.1077
					227	0.0330
					271	0.0120
					272	0.0120
					273	0.0120
					274	0.0120
					291	0.0600
					293	0.0385
					295	0.0743
					305	0.2568
					338	0.0322
					योग	0.6505
20				गोरथानी	197	0.0630
					279	0.0350
					योग	0.0980
21				मण्डोही	48	0.0800
					योग	0.0800
22				जमीन नन्दना	2	0.0012
					6	0.0003
					13	0.0002
					20	0.0001
					29	0.0002
					31	0.0003
					40	0.0005
					45	0.0017
					46	0.0009
					195	0.0009
					योग	0.0063
23				भोराजपुर कला	38	0.0600
					39	0.0090
					40	0.0890
					41	0.0940
					42	0.1880
					योग	0.4400
					महायोग	6.8965

7-राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट रूप में, भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने, भूमि में प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भूमि का समतलीकरण करने, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित समस्त कार्य करने के लिए भी कलेक्टर को प्राधिकृत करती हैं।

8-उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के पश्चात् 60 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में भूमि अर्जन करने के विरुद्ध लिखित रूप में कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9-उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन कोई व्यक्ति, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियां पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा उसका संव्यवहार अर्थात् विक्रय/क्रय नहीं करने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, आजमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 977 /LXXVII-3-2022-57(M)-2020, dated July 21, 2022 :

No. 977 /LXXVII-3-2022-57(M)-2020

Dated Lucknow, July 21, 2022

UNDER sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), whereas the Government of Uttar Pradesh is satisfied that a total of 6.8965 Hectares of land is required in the village Anantpur-0.0330 Hect., Mahadevpur 0.0329 Hect., Katwa Rasoolpur 0.1975 Hect., Maniyarpur 0.0567 Hect., Akbelpur Mu. Gorharpur 0.6695 Hect., Haidarpur Khas 0.1901 Hect., Akbelpur Mu. Haidarpur 1.0758 Hect., Gadanpur 1.0244 Hect., Kukuripur Mu. Chaturpur 1.5151 Hect., Goiji Jamin Goiji 0.0878 Hect., Pranpur 0.0216 Hect., Jogipur 0.0816 Hect., Rasoolpur 0.3130 Hect., Ganpatpur 0.1063 Hect., Rampur Mu. Ganpatpur 0.0010 Hect., Manshapatti 0.0437 Hect., Somapur 0.1610 Hect., Nandana 0.0107 Hect., Shekhpur Mu. Chaturpur 0.6505 Hect., Gorthani 0.0980 Hect., Mandohi 0.0800 Hect., Jamin Nandana 0.0063 Hect. and Bhorajpur Kala 0.4400 Hect., Tehsil-Burhanpur, district Azamgarh for public purpose, namely Gorakhpur Link Expressway Project through the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority.

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submitted its recommendations to the Government of Uttar Pradesh which has approved its recommendation on dated July 14, 2022.

3. In brief, the recommendations of Multi Disciplinary Expert group regarding Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan is as follows :-

(a) Gorakhpur Link Expressway is a linear project which is being run upon a land stretch in maximum 120 mt. width in any affected village. In this way this project is not affecting major or total area of any village. So that the displacement from this project is negligible;

(b) Though this project is likely to reduce the cultivable area in the concerned villages but compensation equal to four times of the circle rate of the land will help the farmers to upgrade the farms, increase in farm machinery and development of irrigation facilities;

(c) The compensation of the land acquisition is likely to develop alternate employment measures, construction of better houses, development of means of transport and agriculture technology. This will compensate the loss due to reduction in land holdings;

(d) This long distance project is likely to connect the remote areas of Uttar Pradesh with the State capital Lucknow reducing the time and cost and improving the commercial activities in the remote areas. It will cause convenience in transporting milk and milk products, fruits and vegetables and other perishable items to big markets and this will help in agricultural and allied purposes;

(e) Growth of fast and better means of transport will help in development of tourism, medical attendance as well as interstate transport;

(f) Therefore, the recommendation of Multi Disciplinary Expert group is as follows:—

(i) It is in the public interest to acquire land for the purpose of Gorakhpur Link Expressway Project in district Azamgarh and it serves the public purpose;

(ii) The probable benefits from this project are more than the social expenditure and adverse Social Impact and total land to be acquired is much less than the total land required for this project.

4. In reference with the above recommendations of the committee, it is worthy to be noted that the revision of circle rate for the area effected by Gorakhpur Link Expressway project, will be done by Stamp and Registration Department/Collector, Azamgarh as per the stipulated procedure.

Procedure for determination of market value of land by Collector is mentioned in section 26 of the said Act. It is also mentioned in clause (b) of sub-section (1) of the said section, that average sale price for similar type of land, situated in the nearest vicinity area will be determined by the Collector.

5. No family is likely to be displaced, due to land acquisition for this project.

6. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below, is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tahsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Anantpur	23	0.0330
					Total	0.0330
2				Mahadevpur	42	0.0329
					Total	0.0329
3				Katwa Rasoolpur	42	0.1590
					44	0.0242
					45	0.0143
					Total	0.1975
4				Maniyarpur	34	0.0567
					Total	0.0567
5				Akbelpur Mu. Gorharpur	46	0.0170
					47	0.0024
					48	0.0039
					50	0.0620
					113 Mi	0.0042
					127	0.2610
					128	0.0034
					129	0.0100
					130	0.0135

Sl. no.	District	Tahsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6	7
	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Akbelpur Mu Gorharpur	133	0.0750
					134	0.0116
					140	0.0071
					141	0.0036
					142	0.0409
					143	0.0060
					147	0.0408
					148	0.1071
					Total	0.6695
6				Haidarpur Khas	440	0.0543
					441	0.1358
					Total	0.1901
7				Akbelpur Mu. Haidarpur	6 Mi	0.0173
					7	0.0023
					15	0.0048
					18	0.0026
					44	0.0050
					55	0.0004
					59	0.0007
					65	0.0167
					67	0.0006
					70	0.0043
					71	0.0760
					73	0.2021
					82	0.0675
					86	0.0324
					87	0.0090
					89	0.0041
					96	0.0770
					92	0.0036
					93	0.0106
					94	0.1178
					95	0.3285

Sl. no.	District	Tahsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6	7
	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Akbelpur Mu. Haidarpur	97	0.0732
					98	0.0158
					101	0.0035
					Total	1.0758
8				Gadanpur	4 Mi	0.122
					15	0.0766
					16	0.1118
					17	0.0150
					96	0.0665
					99	0.1281
					103	0.0222
					104	0.0556
					112	0.0370
					113 Mi	0.0045
					117	0.0231
					118	0.0102
					119	0.0004
					120	0.0246
					121	0.0805
					126	0.0149
					127	0.0534
					140	0.0035
					142	0.0023
					149/1	0.1140
					149/2	0.0570
					150	0.0012
					Total	1.0244
9				Kukuripur Mu. Chatturpur	4	0.0791
					6	0.1254
					9	0.1817
					12	0.1779
					27	0.2400
					28	0.0664

Sl. no.	District	Tahsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6	7
	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Kukuripur Mu. Chatturpur	45	0.0078
					47	0.2991
					48	0.1725
					51	0.0252
					53	0.0724
					73	0.0500
					78	0.0130
					79	0.0046
					Total	1.5151
10				Goiji Jamin Goiji	116	0.0617
					118	0.0261
					Total	0.0878
11				Paranpur	234	0.0216
					Total	0.0216
12				Jogipur	352	0.0009
					353	0.0067
					354	0.0158
					367	0.0050
					368	0.0532
					Total	0.0816
13				Rasoolpur	9	0.0280
					11	0.1139
					13	0.0233
					14	0.0628
					16	0.0850
					Total	0.3130
14				Ganpatpur	174	0.0002
					214	0.0237
					215	0.0045
					255	0.0401
					258	0.0345
					277 Mi	0.0033
					Total	0.1063

Sl. no.	District	Tahsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6	7
15	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Rampur Mu. Ganpatpur	23	0.0009
					25	0.0001
					Total	0.0010
16				Manshapatti	43	0.0101
					54	0.0036
					121	0.0300
					Total	0.0437
17				Somapur	14	0.0444
					15	0.0600
					16	0.0566
					Total	0.1610
18				Nandana	10	0.0004
					11	0.0003
					12	0.0001
					26	0.0001
					34	0.0060
					37 Mi	0.0038
					Total	0.0107
19				Shekhpur Mu. Chatturpur	224	0.1077
					227	0.0330
					271	0.0120
					272	0.0120
					273	0.0120
					274	0.0120
					291	0.0600
					293	0.0385
					295	0.0743
					305	0.2568
					338	0.0322
					Total	0.6505
20				Gorthani	197	0.0630
					279	0.0350
					Total	0.0980

Sl. no.	District	Tahsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6	7
21	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Mandohi	48	0.0800
					Total	0.0800
22				Jamin Nandana	2	0.0012
					6	0.0003
					13	0.0002
					20	0.0001
					29	0.0002
					31	0.0003
					40	0.0005
					45	0.0017
					46	0.0009
					195	0.0009
					Total	0.0063
23				Bhorajpur Kala	38	0.0600
					39	0.0090
					40	0.0890
					41	0.0940
					42	0.1880
					Total	0.4400
					GRAND TOTAL	6.8965

7. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the said Act.

8. Under section 15 of the said Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

9. Under sub-section (4) of section 11 of the said Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE :- A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Azamgarh.

By order,
ARVIND KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 332 राजपत्र-2022-(544)-599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।